

वर्ष 2024 से लोकसभा और वधानसभा चुनाव एक साथ

चर्चा में क्यों?

नीतिआयोग ने कहा है कि वर्ष 2024 से लोकसभा और वधानसभा, दोनों चुनाव एक साथ कराना राष्ट्रीय हित में होगा। नीतिआयोग ने लोकसभा और वधानसभाओं के लिये दो चरणों में चुनाव करवाने का समर्थन किया है, ताकि चुनाव प्रचार के कारण शासन में कम से कम व्यवधान सुनिश्चित हो सके।

इस संबंध में नीतिआयोग के सुझाव

- नीतिआयोग ने एक साथ लोकसभा और वधानसभा चुनावों के लिये विशेषज्ञों का एक समूह गठित किये जाने का सुझाव दिया है जो इस संबंध में सफ़िरशि देगा।
- दरअसल, वर्ष 2024 में एक साथ चुनाव कराने के लिये पहले कुछ वधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती करनी होगी या कुछ के कार्यकाल वस्तितार देना होगा।
- रपिर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रहति में इसे लागू करने के लिये संवधान और इस मामले पर विशेषज्ञों, थकि टैक, सरकारी अधकारियों और वभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतनिधियों सहति पक्षकारों का एक विशेष समूह गठित किया जाना चाहिये, जो इसे लागू करने संबंधी सफ़िरशि करेगा।

चुनाव आयोग को नोडल एजेंसी बनाने का सुझाव

- 'तीन वर्ष का कार्य एजेंडा, 2017-2018 से 2019-2020' शीर्षक वाली इस रपिर्ट में कहा गया है, 'इसमें संवैधानिक और वैधानिक संशोधनों के लिये मसौदा तैयार करना, एक साथ चुनाव कराने के लिये संभव कार्ययोजना तैयार करना, पक्षकारों के साथ बातचीत के लिये योजना बनाना और अन्य जानकारियां जुटाना शामिल होगा।'
- नीतिआयोग ने इन सफ़िरशियों का अध्ययन करने और इस संबंध में मार्च 2018 की 'समय सीमा' तय करने के लिये चुनाव आयोग को नोडल एजेंसी बनाने का सुझाव दिया है।
- आयोग की सफ़िरशि इसलिये भी महत्त्वपूर्ण हो गई है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा और वधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया है।

नषिकर्ष

- वदिति हो कि वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव पर 1,100 करोड़ रुपए खर्च हुए और वर्ष 2014 में यह खर्च बढ़ कर 4,000 करोड़ रुपए हो गया।
- बार-बार चुनाव कराने से एक ओर जहाँ सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है वहीं शिक्षा क्षेत्र के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में भी काम-काज प्रभावति होता है। ऐसा इसलिये क्योंकि बड़ी संख्या में शकिषकों सहति एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में शामिल होते हैं।
- बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को भी चुनाव कार्य में लगाना पड़ता है जबकि देश की सीमाएँ सन्वेदनशील बनी हुई हैं और आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है।
- दरअसल, आज़ादी के बाद शुरुआती दशकों में लोकसभा और राज्य वधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित किया गया था। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद चुनाव सुधारों के संबंध में रचनात्मक पहल का यह उचित समय है।
- यह चुनाव आयोग का दायित्व है कि राजनीतिक दलों के साथ परामर्श के बाद वह इस पहल को आगे बढ़ाए।